

@shahjahanpupol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 27.09.2021

थाना कलान को मिली बड़ी कामयाबी,

हिस्ट्रीशीटर शिवराज को अवैध असलहा सहित किया गिरफ्तार।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जघन्य अपराधो मे संलिप्त व अवैध शस्त्र रखने वालों अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्री संजीव कुमार बाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री अरविन्द कुमार जलालाबाद के निर्देशन में थाना कलान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दिनांक 27.09.2021 की प्रातः करीब 06.05 बजे थाना कलान पुलिस टीम द्वारा सूचना मुखबिर की सूचना के आधार पर मजार के पास ग्राम भगवानपुर से थाना कलान के **हिस्ट्रीशीटर 78/A शिवराज यादव पुत्र मुलायम यादव निवासी ग्राम भगवानपुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर** को एक अबैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गिरफ्तार के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कलान पर **मु0अ0स0 527/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत होकर अभियुक्त को न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

उक्त गिरफ्तार अभियुक्त बहुत ही कुख्यात बदमाश है। इसके उपर लूट हत्या डकैती के आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के उपर गैंगस्टर की कार्यवाही की जा चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. शिवराज यादव पुत्र मुलायम यादव निवासी ग्राम भगवानपुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर (हिस्ट्रीशीट नं0 HS 78/A)

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमंचा देशी 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 527/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कलान
2. मु0अ0स0 215/93 धारा 324/504 भादवि थाना कलान
3. मु0अ0सं0 205/98 धारा 147/148/49/307/302 भादवि थाना कलान
4. मु0अ0स0 225/98 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कलान
5. मु0अ0सं0 0019/99 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कलान
6. मु0अ0सं0 0078/13 धारा 395 भादवि थाना कलान

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार
2. उ0नि0 श्री गोविन्द सिंह
3. उ0नि0 श्री ओमवीर सिंह सोलंकी
4. का0 1158 शीलेन्द्र सिंह
5. का0 1776 करन कुमार